



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 285]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 22, 2006/पौष 1, 1928

No. 285]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 22, 2006/PAUSA 1, 1928

वस्त्र मंत्रालय

(हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय)

संकल्प

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2006

फा. सं 1/55/2000-डीसीएचएल/समन्वय/एआईएचबी.-

भारत सरकार के दिनांक 28 अगस्त, 2006, 18 अक्टूबर, 2006, 30 अक्टूबर, 2006, 14 और 22 नवम्बर, 2006 एवं 5 दिसम्बर, 2006 के संकल्प संख्या 1/55/2000-डीसीएचएल/समन्वय/एआईएचबी में आंशिक संशोधन करते हुए अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड में गैर-सरकारी सदस्य के रूप में नामित निम्नलिखित व्यक्तियों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है :-

1. श्री अमृत लाल धर्मशिभाई सोनी,
बी/9, भगवान नगर, सोसाइटी,
निकट गोबिंद वाड़ी, ईशानपुर,
अहमदाबाद-382443 (गुजरात)
2. सुश्री आशाबेन बाबूलाल पटेल,
मार्फत हरिवाला बंगला,
71, जे. के. पार्क बस स्टॉप,
गोटा रोड, चांदलोडिया,
अहमदाबाद (गुजरात)
3. श्री धन लक्ष्मीबेन वी. चौहान,
प्लाट नं. 234/बी, आर. टी. ओ. पुनर्वास स्थल,
भुज्ज, कच्छ (गुजरात)
4. सुश्री रसीलाबेन मकवाना,
गायत्री कृपा,
हुडको,
474, आनंद नगर, भावनगर (गुजरात)

5. श्रीमती इंदुबेन हसमुखभाई रावल,
सैक्टर-26, ग्रीन सिटी,
गांधी नगर (गुजरात)
6. श्रीमती नीतूबा वेलुभा वघेला,
सी-टी/3, जयमालव अपार्टमेंट्स,
निकट हेवनपार्क, रामदेव नगर सैटेलाइट,
अहमदाबाद-15 (गुजरात)
7. सुश्री संजीत कौर,
295/ए, नरसिंग गढ़, श्रीनगर,
अहमद शापिंग काम्प्लेक्स,
हाल सं. 1 (तीसरी मंजिल),
बारामूला,
श्रीनगर (जम्मू व कश्मीर)।

इसे माननीय वस्त्र मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

बी. के. सिन्हा, संयुक्त सचिव एवं विकास आयुक्त
(हथकरघा)

MINISTRY OF TEXTILES

(OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
FOR HANDLOOMS)

RESOLUTION

New Delhi, the 13th December, 2006

F. No. 1/55/2000-DCHL/Coordn./AIHB.—In partial modification of Government of India's Resolution No. 1/55/2000-DCHL/Coordn./AIHB dated 28th August, 2006, 18th October, 2006, 30th October, 2006, 14th November, 2006, 22nd November, 2006 and 5th December, 2006 the following persons have been removed as non-official members of the All India Handloom Board, with immediate effect:—

1. Shri Amrutlal Dharmshibhai Soni,
B/9, Bhagwannagar Society,
Near Govindwadi, Isanpur,
AHMEDABAD-382 443 (Gujarat)

- | | |
|--|--|
| 2 Ms. Ashaben Babulal Patel,
C/o Hari Valla Bungalows,
71, J.K. Park Bus Stop,
Gota Road, Chandlodia,
AHMEDABAD (Gujarat). | 5. Smt. Induben Hasmukhbhai Raval,
Sector-26, Green City,
GANDHINAGAR (Gujarat). |
| 3 Shri Dhan Lakshmiben V. Chauhan,
Plot No. 234/B,
RTO Relocation Site,
Bhuj,
KUTCH (Gujarat). | 6. Smt. Nituba Velubha Vaghela,
C-T/3, Jaymalav Apartments,
Near Heaven Park,
Ramdevnagar Sattelite,
AHMEDABAD-15 (Gujarat). |
| 4 Ms. Rasilaben Makwana,
Gayatri Kripa,
HUDCO,
474, Anand Nagar,
BHAVNAGAR (Gujarat). | 7. Ms. Sanjeet Kaur,
295/A, Narshingh Garh Srinagar,
Ahmad Shopping Complex, Hall No. 1
(3rd Floor) Baramulla,
SRINAGAR (J & K). |

This issues with the approval of the Hon'ble
Minister of Textiles.

B. K. SINHA, Jt. Secy. and
Development Commissioner (Handlooms)